

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 827 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का) TC / 2019
देहरादून : दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अस्थाई रूप से तालिका के कॉलम-4 के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेजों में नियुक्त प्रदान की गयी थी।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	विभाग का नाम	तैनाती का स्थान	पता
1	2	3	4	5
1	डा० संजूल डन्डोना	ऐनेस्थिसिया	राजकीय दून मेडिकल कालेज	एच.एन.बी. बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर गढवाल, पौड़ी।
2	डा० विशाल अग्रवाल	रेडियोडायग्नोसिस	राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी	71 विकास नगर, नियर साई बाबा मन्दिर, किला रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474002
3	डा० विजयानन्दा नायक	कम्युनिटी मेडिसन	राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर	न०-28 रथीनाम स्ट्रीट, आनन्द नगर, करहीरकमाम, पौड़ीचेरी 605009
4	डा० अविशाम	टी०वी० चैस्ट	राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर	के.एच. न० 311 जी.ए., नियर केनरा बैंक, बनजारावाला, रोड कारगी ग्रांट, देहरादून।

2- उक्त तालिका में उल्लिखित चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वर्तमान तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु मना किया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत शासन के सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या-827 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का)TC /2019 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
3. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उनके पत्र संख्या-उ0स0चि0 से0च0बो0/परी0/47/2018-19(II)/117 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के क्रम में।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धितों अभ्यर्थियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, दून/हल्द्वानी/श्रीनगर/अल्मोडा।
8. संबंधित अभ्यर्थियों को संलग्न सूची के अनुसार पंजीकृत डाक द्वारा।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव